

The BSE Ltd.
BSE's Corporate Relationship Department
1st Floor, New Trading Ring,
Rotunda Building, P.J. Towers,
Dalal Street, Fort,
Mumbai 400 001

National Stock Exchange of India Limited
"Exchange Plaza"
Bandra-Kurla Complex
Bandra (E)
Mumbai- 400 051

SRF/SEC/BSE/NSE

07.08.2025

Dear Sir/Madam,

Sub: Newspaper Publication for the Shareholders of the Company

Please find enclosed herewith the Newspaper clippings of the publication titled –

- (A) SPECIAL WINDOW FOR RE-LODGE MENT OF TRANSFER REQUESTS OF PHYSICAL SHARES &
- (B) SPECIAL DRIVE FOR UPDATION OF KYC & OTHER RELATED UPDAT IONS TO PREVENT TRANSFER OF UNPAID/ UNCLAIMED DIVIDENDS TO IEPF”

published by the Company today in the Financial Express (English) and Jansatta (Hindi) editions on 07.08.2025.

The above is for your information and records.

Thanking you,

Yours faithfully,
For **SRF LIMITED**

Rajat Lakhnpal
Sr. VP (Corporate Compliance) & Company Secretary

Encl : A/a

Particulars	STANDALONE				CONSOLIDATED			
	Quarter Ended		Year Ended		Quarter Ended		Year Ended	
	30.06.2025	31.03.2025	30.06.2024	31.03.2025	30.06.2025	31.03.2025	30.06.2024	31.03.2025
Total Income from Operations (net)	24,244.96	18,998.18	24,547.81	91,930.17	24,532.07	18,998.28	24,540.53	91,958.25
Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	2,211.11	1,465.64	1,231.08	5,463.25	2,060.02	1,334.43	1,148.91	5,029.27
Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	2,211.11	1,465.64	1,231.08	5,463.25	2,060.02	1,334.43	1,148.91	5,029.27
Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	1,645.85	1,106.13	896.42	4,083.38	1,491.77	970.60	810.95	3,634.34
Total Comprehensive Income for the period (Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after Tax))	1,643.04	1,067.43	896.42	4,044.68	1,439.62	931.90	810.95	3,595.64
Equity Share Capital	300.19	300.19	300.19	300.19	300.19	300.19	300.19	300.19
Reserve (excluding Revaluation Reserves as shown in Balance Sheet of previous year)	NA	NA	NA	26,673.24	NA	NA	NA	26,143.64
Earnings Per Share (of ₹ 10/- each)								
(a) Basic (in Rs.)	54.73	35.56	29.86	134.74	47.96	31.04	27.01	119.78
(b) Diluted (in Rs.)	54.73	35.56	29.86	134.74	47.96	31.04	27.01	119.78

Notes:
The above is an extract of the detailed format of Quarterly Financial Results filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly Financial Results is available on the BSE Ltd. (Stock Exchange) website (www.bseindia.com), and Website of the Company (www.nilelimited.com).

Place : Hyderabad
Date : 6th August, 2025

For Nile Limited
Sd/-
Rajani K
Company Secretary

Dematerialized Holding	
Register / update the details in your demat account, as per the process advised by your DP.	
Physical Holding	
Register/update the details in prescribed Form ISR-1 and other relevant forms with RTA of the Company i.e., MUFU Intime India Private Limited at coimbatore@in.mpmms.mufg.com Shareholders may download the prescribed form from the Company's website at https://www.asterdmhealthcare.in/investors/shareholders-services	

5. Shareholders may note that the Board of Directors at its meeting held on May 20, 2025, has recommended a final dividend of INR 1/- per equity share for the financial year ended March 31, 2025. The dividend, if approved, by the shareholders will be paid within the stipulated timeline as prescribed under the Act, to the shareholders whose names appears in the Register of Members or Register of Beneficial Owners, as the case may be, as on the Record Date i.e. Thursday, August 28, 2025.

6. Shareholders may note that pursuant to the Income Tax Act, 1961 as amended by the Finance Act, 2022, the dividend income will be taxable in the hands of shareholders, and the Company is required to deduct tax at source (TDS) from dividend paid to shareholders at the prescribed rates. Further details on TDS on dividend are provided on the Company's website at https://www.asterdmhealthcare.in/investors/shareholders-services/information-on-dividend-tax

The detailed instructions regarding the above will be provided in the Notice of the AGM and Shareholders are requested to take note of the same.

For Aster DM Healthcare Limited
Sd/-
Hemish Purushottam
Company Secretary
Membership No. 24331

Place: Bengaluru
Date: 06.08.2025

S.No.	Particulars	Standalone				Consolidated			
		Quarter Ended		Year ended		Quarter Ended		Year ended	
		30-Jun-25	31-Mar-25	30-Jun-24	31-Mar-25	30-Jun-25	31-Mar-25	30-Jun-24	31-Mar-25
1	Income	3,856	3,701	3,327	14,408	8,787	8,014	6,930	30,670
2	Net profit (Before tax and Exceptional items)	797	1,097	816	3,923	1,137	1,232	1,271	5,473
3	Net profit before tax (after Exceptional items)	797	1,205	816	4,031	1,137	1,340	1,271	5,581
4	Net profit after tax (after tax and Exceptional items)	588	935	607	3,029	850	1,061	952	4,148
5	Total comprehensive income for the period/year (Comprising income for the period/year (after tax))	585	943	608	3,016	845	1,069	953	4,125
6	Equity share capital (Face value of Rs. 2/- each)				800				800
7	Reserves (excluding revaluation reserve)				20,880				20,578
8	Earnings per share (Face value of Rs. 2/- each): (not annualised for the quarter ended)								
	(a) Basic (Rs.)	1.47	2.34	1.52	7.57	1.96	2.54	2.16	9.61
	(b) Diluted (Rs.)	1.47	2.34	1.52	7.57	1.96	2.54	2.16	9.61

Note: 1) The above is an extract of detailed Unaudited Financial Results filed with Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations 2015. The full format of the Financial Results for the quarter ended 30 June 2025 are available on Stock Exchange(s) website www.bseindia.com, www.nseindia.com and on Company's website at www.kimshospitals.com.

2. The above results of the Company have been reviewed by the audit committee and approved by the Board of Directors at their meeting held on 06 August 2025.

Place: Thane
Date: 06 Aug 2025

By Order of the Board
For Krishna Institute of Medical Sciences Limited
Dr. B Bhaskara Rao
Chairman & Managing Director
DIN: 00008985

ENGINEERS INDIA LIMITED (A Govt. of India Undertaking)	
Regd. Office: Engineers India Bhawan, 1, Bhikaji Cama Place, New Delhi - 110066	
NOTICE TO PHYSICAL SHAREHOLDERS (Special Window for Re-Lodgement of Transfer Requests of Physical Shares)	
SEBI, vide circular no. SEBI/HO/MIRSD/MIRSD-PoD/P/CIR/2025/97 dated July, 02, 2025, has allowed opening of a special window to facilitate re-lodgement of transfer requests of physical shares lodged prior to the deadline of 1 st April 2019 and rejected / returned due to deficiencies in documents.	
Key details:	
Window for re-lodgement	7 th July 2025 to 6 th January 2026
Who can re-lodge the transfer requests?	Investor whose transfer deeds were lodged prior to 1 st April, 2019 and rejected/returned due to deficiencies in documents.
How to re-lodge the transfer requests?	Submit original transfer documents, along with corrected or missing details to the Registrar and Share Transfer Agent, M/s Alankit Assignments Limited.
Postal Address	205-208, Anarkali Complex, Jhandewalan Extension, New Delhi-110055
Helpline No.	Tel No.: 011-42541234
For any queries	Send email at virenders@alankit.com or company.secretary@eil.co.in
The shares that are re-lodged for transfer shall be issued only in demat mode.	
For Engineers India Limited Sd/- S. K. Padhi Company Secretary & Compliance Officer	
Date: 06.08.2025 Place: New Delhi	

SRF Limited	
CIN: L18101DL1970PLC005197	
Registered Office: The Galleria, DLF Mayur Vihar, Unit No. 236 & 237, Second Floor, Mayur Place, Mayur Vihar Phase I Extn, Delhi - 110091	
Corporate Office: Block C, Sector 45, Gurugram-122003	
Tel: +91-124-4354400, Fax No: +91-124-4354500	
Email: cs@srf.com ; Website: www.srf.com	
(A) SPECIAL WINDOW FOR RE-LODGE OF TRANSFER REQUESTS OF PHYSICAL SHARES &	
(B) SPECIAL DRIVE FOR UPDATION OF KYC & OTHER RELATED UPDATES TO PREVENT TRANSFER OF UNPAID/UNCLAIMED DIVIDENDS TO IEPF	
(A) Shareholders may note that in terms of the SEBI Circular dated 2 nd July 2025, a Special Window is open from 7 th July, 2025 to 6 th January, 2026 for re-lodgement of Transfer Deeds lodged before 1 st April, 2019 but rejected, returned or unattended due to deficiencies. Eligible shareholders who missed the previous Deadline (31 st March, 2021) should submit original corrected transfer documents to Kfin Technologies Limited (the Company's RTA) within this window	
Note: Shares re-lodged during this period will be transferred only in demat mode Please ensure you have an active demat account. Please provide your Client Master list (CML) along with transfer documents.	
(B) Shareholders are also informed that the Investor Education and Protection Fund Authority (IEPFA), vide its letter dated 16 th July, 2025, has requested companies to begin a 100-day campaign titled "Saksham Niveshak" from 28 th July, 2025 to 6 th November, 2025, targeting shareholders with unclaimed dividends. In response, the Company is conducting this special campaign to assist shareholders in claiming their unclaimed dividends from the Unpaid Dividend Account for the financial year 2018-19 onwards after update of their KYC details.	
For any issues related to unpaid or unclaimed dividends or to update your KYC, you may contact to RTA Einward.ris@kfinetech.com or Company at cs@srf.com . You may also visit the Corporate Office of the Company at Gurugram or of the RTA i.e. Kfin Technologies Limited at Hyderabad. You may contact the company during business hours (09:00 am to 5:00 pm) by calling on 0124 4354 400/665 or to RTA at Toll Free No. 1-800-309-4001.	
The Company has sent reminder letters to the relevant shareholders urging them to update their KYC and bank details to receive dividends electronically.	
Note: As per SEBI guidelines from 1 st April, 2024, dividends for shareholders with Physical shares are only paid electronically. Eligible shareholders must provide their KYC details-PAN, contact information (postal address with PIN and mobile number), bank account details, and specimen signature etc to the Company or its RTA to receive dividend payment. Once updated, all the unclaimed dividend previously declared by the Company shall be paid to the shareholders electronically.	
For SRF Limited Sd/- Rajat Lakhnpal Sr. VP (Corporate Compliance) & Company Secretary	
Date: 06.08.2025 Place: Gurugram	

POST OFFER ADVERTISEMENT TO THE EQUITY SHAREHOLDERS OF				
SITA ENTERPRISES LIMITED				
("SEL"/"TARGET COMPANY"/"TC") (Corporate Identification No. L45202MH1982PLC026737)				
Registered Office: 415-416, Arun Chambers, 4 th Floor, Tardeo Road, Mumbai - 400034, Maharashtra;				
Phone No.: +91-22-66627383/66627384/49713666;				
Email id: sitaenterprisesltd@yahoo.com ; Website: www.sitaenterprises.com				
Open offer for acquisition of 7,50,000 Equity Shares of Rs. 10/- each representing 25.00% of the equity and voting share capital of the Target Company by Mr. Jitendra Rasiklal Sanghavi (Acquirer).				
This Post offer Advertisement is being issued by Navigant Corporate Advisors Limited, The Manager to the offer, on behalf of the Acquirer, in connection with the offer made by the Acquirer in compliance with Regulation 18(12) of the Securities and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulation, 2011 and subsequent amendments thereto ("SEBI (SAST) Regulation, 2011").				
The Detailed public statement ("DPS") pursuant to the Public Announcement ("PA") made by the Acquirer has appeared in Financial Express - English Daily (all editions); Jansatta - Hindi Daily (all editions); Pratitkaal - Marathi Daily (Mumbai edition) on January 01, 2025.				
1. Name of the Target Company : Sita Enterprises Limited				
2. Name of the Acquirer : Mr. Jitendra Rasiklal Sanghavi				
3. Name of the Manager to the offer : Navigant Corporate Advisors Limited				
4. Name of the Register to the officer : MUFU INTIME INDIA PRIVATE LIMITED (Formerly known as Link Intime India Private Limited)				
5. Offer details				
a) Date of Opening of the Offer : Friday, 18 th July, 2025				
b) Date of the Closing of the offer : Thursday, 31 st July, 2025				
6. Date of Payment of Consideration : 06.08.2025				
7. Details of the Acquisition :				
Sr No.	Particulars	Proposed in the Offer Document		Actual
7.1.	Offer Price	Rs. 92.50 per Equity Share	Rs. 92.50 per Equity Share	
7.2.	Aggregate number of Shares tendered	7,50,000	52,933	
7.3.	Aggregate number of Shares accepted	7,50,000	52,933	
7.4.	Size of the offer (Numbers of shares multiplied by Offer price per share)	Rs. 6,93,75,000	Rs. 48,96,302.50	
7.5.	Shareholding of the Acquirer before Share Purchase Agreement (SPA) and Public Announcement (No. & %)	Nil (0.00%)	Nil (0.00%)	
7.6.	Shares Acquired by way of Share Purchase Agreement (SPA)			
	• Number	21,00,000 (70.00%)	21,00,000 (70.00%)	
	• % Fully Diluted Equity Share Capital			
7.7.	Shares Acquired by way of Open offer			
	• Number	7,50,000 (25.00%)	52,933 (1.76%)	
	• % Fully Diluted Equity Share Capital			
7.8.	Shares Acquired after detailed Public Statement			
	• Number of Shares acquired	Not Applicable	Not Applicable	
	• Price of the shares acquired			
	• % of the shares acquired			
7.9.	Post offer Shareholding of Acquirer			
	• Number	28,50,000 (95.00%)	21,52,933 (71.76%)	
	• % Fully Diluted Equity Share Capital			
7.10.	Pre and Post Offer Shareholding of Public Shareholders			
	• Number	7,50,000 (25.00%)	1,50,000* (5.00%)	7,50,000 (25.00%)
	• % Fully Diluted Equity Share Capital			8,47,067* (28.24%)

*Pursuant to this Offer and the transactions contemplated in the SPA, the Acquirer shall become the Promoter of the Target Company and, the Selling Promoter Shareholders and other existing promoters will cease to be the promoter of the Target Company and shall be classified as a public shareholder in accordance with the provisions of Regulation 31A (10) of the SEBI (LODR) Regulations.

8. The Acquirer accepts full responsibility for the information contained in this Post Offer Advertisement and also for the fulfillment of his obligations as laid down by SEBI (SAST) Regulations, 2011.

9. A copy of this Post Offer Advertisement will be available on the website of SEBI.

10. Capitalized terms used in this advertisement and not define herein, shall have same meaning assigned to them in the Letter of Offer dated 07.07.2025.

ISSUED BY MANAGER TO THE OFFER FOR AND ON BEHALF OF THE ACQUIRER	
NAVIGANT CORPORATE ADVISORS LIMITED	
804, Meadows, Sahar Plaza Complex, J B Nagar, Andheri Kuria Road, Andheri East, Mumbai - 400059.	
Tel No. +91 22 4120 4837 / 4973 5078	
Email id: navigant@navigantcorp.com	
Website: www.navigantcorp.com	
SEBI Registration No: INM000012243	
Contact person: Mr. Sarthak Vijlani	
Place: Mumbai	
Date: August 06, 2025	

Welspun ENTERPRISES		WELSPUN ENTERPRISES LIMITED			
		CIN: L45201GJ1994PLC023920			
		Regd. Office : Welspun City, Village Versamedi, Taluka Anjar, District Kutch, Gujarat - 370110.			
		Corp. Office : Welspun House, Kamala Mills Compound, Senapati Bapat Marg, Lower Parel (West), Mumbai - 400013.			
		Website: www.welspunenterprises.com Email ID: companysecretary_wel@welspun.com			
Extract of Statement of Unaudited Consolidated Financial Results for the quarter ended June 30, 2025					
Sr. No.	Particulars	(Rupees in Crores)			
		Quarter ended June 30, 2025 (Unaudited)	Quarter ended March 31, 2025 (Audited)	Quarter ended June 30, 2024 (Unaudited)	Year ended March 31, 2025 (Audited)
1	Total income	870.62	1,075.95	959.76	3,792.59
2	Net Profit for the period from continuing operations (before tax and exceptional items)	153.83	147.10	153.94	519.21
3	Net Profit for the period from continuing operations before tax (after exceptional items)	153.83	147.88	153.94	519.99
4	Net profit after tax and share in profit / (loss) of associate and discontinuing operations	101.17	105.49	109.73	353.83
5	Total Comprehensive Income for the period	100.71	105.83	109.51	352.04
6	Net Profit for the period from continuing operations after tax (after exceptional items and excluding non-controlling interests)	103.33	100.26	104.44	352.30
7	Net Profit / (Loss) for the period from discontinuing operations after tax (after exceptional items and excluding non-controlling interests)	(12.57)	(5.72)	(6.42)	(29.74)
8	Net Profit for the period from continuing and discontinuing operations after tax and after exceptional items and excluding non-controlling interests	90.76	94.54	98.02	322.56
9	Total Comprehensive Income for the period from continuing and discontinuing operations (Comprising profit for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax) and excluding non-controlling interests	90.30	94.88	97.80	320.77
10	Paid-up equity share capital, net of treasury shares (Face Value Rs.10/- each)	136.71	136.71	136.51	136.71
11	Reserves (excluding Revaluation Reserve)	-	-	-	2,403.47
12	Earnings per share (EPS) for continuing operations *				
	(a) Basic EPS	7.56	7.35	7.65	25.79
	(b) Diluted EPS	7.47	7.24	7.55	25.45
13	Earnings per share (EPS) for continuing and discontinuing operations *				
	(a) Basic EPS	6.64	6.93	7.18	23.61
	(b) Diluted EPS	6.56	6.83	7.08	23.30

* Earnings per share not annualised for quarter results. In respect of Diluted earnings per share, the effects of all dilutive potential equity shares are adjusted except when the results would be anti-dilutive.

Notes :-

1 The above is an extract of detailed format of quarterly financial results filed with the stock exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulation 2015. The full format of the quarterly financial results are available on the Stock Exchanges website www.nseindia.com and www.bseindia.com and also on company's website www.welspunenterprises.com.

2 Additional information on standalone financial results is as follows :-

(Rupees in Crores)					
Sr No.	Particulars	Quarter ended June 30, 2025 (Unaudited)	Quarter ended March 31, 2025 (Audited)	Quarter ended June 30, 2024 (Unaudited)	Year ended March 31, 2025 (Audited)
		1	Total Income	635.67	760.01
2	Net profit for the period (before tax and exceptional items)	116.66	111.90	118.50	412.87
3	Net profit for the period before tax (after exceptional items)	116.66	112.22	118.50	413.19
4	Net profit for the period after tax	86.77	84.61	88.93	307.70
5	Total Comprehensive Income for the period (after tax)	86.32	84.89	88.71	305.90

Place : Mumbai
Date : August 6, 2025

For Welspun Enterprises Limited
Sd/-
Sandeep Garg
Managing Director
DIN 00036419

